

प्रेस नोट

दिनांक 13.10.2020

सराहनीय कार्य थाना गौरीगंज व एसओजी टीम जनपद अमेठी

पुलिस मुठभेड़ में रु0 25000/- का ईनामिया व गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अन्तर्जनपदीय शांतिर अपराधी गिरफ्तार,
कब्जे से 01 अवैध पिस्टल, 03 खोखा कारतूस .32 बोर बरामद ।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री दिनेश सिंह के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी गौरीगंज श्री संतोष सिंह के कुशल नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 13.10.2020 को प्रभारी निरीक्षक गौरीगंज अरुण कुमार द्विवेदी मय हमराह, प्रभारी एसओजी विनोद यादव मय टीम के चेकिंग सन्दिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन रात्रि गश्त में सब्जी मण्डी तिराहे पर मौजूद थे कि एक मोटरसाइकिल सवार रायबरेली रोड की तरफ आ रहा था पुलिस वालों को देखकर सैंठा रोड की तरफ मुड़कर भागने लगा कि शंकावश प्रभारी निरीक्षक गौरीगंज व एसओजी द्वारा पीछा किया गया । आरटीओ ऑफिस के पास मोटरसाइकिल सवार द्वारा पुलिस पर जानलेवा फायरिंग करते हुये सैंठा बार्डर की तरफ भागा । सैंठा बार्डर पर मौजूद उ0नि0 लक्ष्मीकांत सोनकर मय टीम द्वारा सूचना के आधार पर घेर लिया गया । मोटरसाइकिल सवार द्वारा दाहिने तरफ कच्ची मिट्टी की तरफ मोड़ा व गिर गया । पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग करता रहा । का0 अंकित पाण्डेय को बायें हाथ की कोहनी में छीलती हुई एक गोली निकल गई । आत्मरक्षार्थ प्रभारी निरीक्षक गौरीगंज अरुण कुमार द्विवेदी व उ0नि0 विनोद कुमार यादव प्रभारी एसओजी तथा उ0नि0 संदीप राय द्वारा एक-एक राउण्ड फायर किया गया । फायर करते हुये घेर कर मोटरसाइकिल सवार को समय 00:05 बजे रात्रि में पकड़ लिया गया । पकड़े हुये व्यक्ति का नाम राहुल विश्वकर्मा पुत्र स्व0 शिवकुमार विश्वकर्मा नि0 हलियापुर पिपरी थाना हलियापुर जनपद सुल्तानपुर है जिसके बायें पैर में गोली लगी है । कब्जे से 01 अदद पिस्टल, 03 खोखा कारतूस बरामद हुआ । गिरफ्तार अभियुक्त थाना जगदीशपुर में गैंगेस्टर एक्ट में वांछित रु0 25000/- का ईनामिया है जिस पर विभिन्न जनपदों में कई अभियोग पंजीकृत है । थाना गौरीगंज में मु0अ0स0 486/20 धारा 307 भादवि व मु0अ0स0 487/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त राहुल विश्वकर्मा ने बताया कि मैं थाना जगदीशपुर में गैंगेस्टर के मुकदमें में वांछित हूँ तथा मेरे ऊपर 25000/- रुपये का इनाम है, विभिन्न जनपद थाना में मेरे ऊपर कई मुकदमें दर्ज हैं इसीलिये मैं रायबरेली फरार होने की फिराक में भागने के लिये जा रहा था कि पुलिस को देखकर मैं भागा पुलिस ने मेरा पीछा किया, पुलिस से पकड़े जाने से बचने के लिये पुलिस के ऊपर जानलेवा फायरिंग किया । जब मेरे राउण्ड खत्म हो गये तब मैं पकड़ा गया ।

गिरफ्तारी का स्थान:- सैंठा बार्डर के पास,

दिनांक:- 13.10.2020

समय:- 00:05 बजे रात्रि

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

- राहुल विश्वकर्मा पुत्र स्व0 शिवकुमार विश्वकर्मा नि0 हलियापुर पिपरी थाना हलियापुर जनपद सुल्तानपुर ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अदद पिस्टल, 03 अदद खोखा कारतूस .32 बोर ।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

1. मु0अ0स0486/20 धारा 307 भादवि थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
2. मु0अ0स0487/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
3. मु0अ0स0 308/20 धारा 2/3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी (रु0 25000/- ईनामिया) ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्र०नि० अरुण कुमार द्विवेदी थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
2. उ०नि० विनोद यादव प्रभारी एसओजी जनपद अमेठी ।
3. उ०नि० संदीप राय थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
4. उ०नि० शिवबक्श सिंह थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
5. उ०नि० संजय राय थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
6. उ०नि० लक्ष्मीकांत सोनकर थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
7. का० विनय तिवारी थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
8. का०चा० शिवराम पाल थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
9. का० देवव्रत सिंह थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
10. का० अंकज यादव थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
11. कां० इमाम हुसैन एसओजी जनपद अमेठी ।
12. कां० ज्ञानेन्द्र सिंह एसओजी जनपद अमेठी ।
13. कां० सोनू यादव एसओजी जनपद अमेठी ।
14. का० धीरेन्द्र कुमार एसओजी जनपद अमेठी ।
15. का० अमरीश गोस्वामी एसओजी जनपद अमेठी ।
16. का० अरुणेश मौर्य एसओजी जनपद अमेठी ।
17. कां० अंकित पाण्डेय एसओजी जनपद अमेठी ।
18. कां० दिनेश कुमार यादव एसओजी जनपद अमेठी ।
19. का०चा० शिव प्रकाश मौर्य एसओजी जनपद अमेठी ।

आपराधिक इतिहास – अभि० राहुल विश्वकर्मा

1. मु०अ०स० निल/13 धारा 41/411 भादवि थाना बल्दीराय जनपद सुल्तानपुर ।
2. मु०अ०स० 420/14 धारा 147,148,149,302,120बी,34 भादवि थाना बल्दीराय जनपद सुल्तानपुर ।
3. मु०अ०स० 330/14 धारा 379,411 भादवि थाना बल्दीराय जनपद सुल्तानपुर ।
4. मु०अ०स० 351/14 धारा 380 भादवि थाना बल्दीराय जनपद सुल्तानपुर ।
5. मु०अ०स० 45/15 धारा 307,419,419,420 भादवि थाना बल्दीराय जनपद सुल्तानपुर ।
6. मु०अ०स० 46/15 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बल्दीराय जनपद सुल्तानपुर ।
7. मु०अ०स० 29/15 धारा 380 भादवि थाना बल्दीराय जनपद सुल्तानपुर ।
8. मु०अ०स० 79/13 धारा 379,411 भादवि थाना हजरतगंज जनपद लखनऊ ।
9. मु०अ०स० 398/13 धारा 41,411,413,414 भादवि थाना कमरौली जनपद अमेठी ।
10. मु०अ०स० 09/15 धारा 356,379,411 भादवि थाना हलियापुर जनपद सुल्तानपुर ।
11. मु०अ०स० निल/19 धारा 110 जी द०प्र०सं० थाना हलियापुर जनपद सुल्तानपुर ।
12. मु०अ०स० 83/20 धारा 352,506,411 भादवि थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी ।
13. मु०अ०स० 140/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी ।